

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित=

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 10—नवम्बर 16, 2018 (कार्तिक 19, 1940)=
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 10—NOVEMBER 16, 2018 (KARTIKA 19, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1=

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और
अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय

(केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्टूबर 2018

सं. ओ दो-4083/2016-कार्मिक डीए-6—सक्षम प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. ईनापल्ली नागाराजु, चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेंट), ईरला-10969, 195 बटालियन, केरिपुबल द्वारा दिनांक 19/09/2018 (अपराहन) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् 19/09/2018 (अपराहन) से हटाया जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 25 अक्टूबर 2018

सं. ओ दो-7789/2018-कार्मिक डीए-4—सरकारी सेवा से स्वेच्छक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 10/07/2018 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री मनीष त्यागी उप कमाण्डेन्ट (ईरला-7789), 18 बटालियन, केरिपुबल,

कुलगाम, जिला कुलगाम (जम्मू व कश्मीर) ने दिनांक 11/10/2018 (अपराहन) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 11/10/2018 (अपराहन) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 29 अक्टूबर 2018

सं. ओ दो-01/2018-कार्मिक डीए-6—राष्ट्रपति जी निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी (उप कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600-39,100 साथ में रु. 6600/- ग्रेड वेतन (पे मैट्रिक्स लेवल-11, सातवें वेतन आयोग के अनुसार) में अस्थायी रूप से उनके समक्ष दर्शाई गई तिथि से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी का नाम	विशेषज्ञ	रिपोर्ट करने की तिथि	रिपोर्ट किया गया स्थान
1	डॉ. रवि शंकर प्रसाद	एनेस्थीसिया	31/01/2017 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, मुजफ्फरपुर
2	डॉ. शशि भुषण कुमार	पैथोलॉजी	24/11/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, मुजफ्फरपुर
3	डॉ. रीना सिंह	स्त्री रोग विशेषज्ञ	01/05/2017 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, रामपुर

भाग-2

राष्ट्रपति जी निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्साधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतन बैंड रु. 15,600-39,100 साथ में रु. 5400/- ग्रेड वेतन (पे मैट्रिक्स लेवल-10, सातवें वेतन आयोग के अनुसार) में अस्थायी रूप से उनके समक्ष दर्शाई गई तिथि से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी का नाम	रिपोर्ट करने की तिथि	रिपोर्ट किया गया स्थान
1	डॉ. मरेड्डी विष्णु वर्धन	02/01/2017 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, हैदराबाद
2	डॉ. वरुण मिश्रा	29/11/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, नीमच
3	डॉ. मंदीप सिंह	30/11/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, जम्मू
4	डॉ. राहुल दिनेश	25/11/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, पल्लीपूरम
5	डॉ. अभिषेक पाण्डेय	29/11/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, राँची
6	डॉ. गजुला अरुण कुमार	30/11/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, आवड़ी
7	डॉ. आर. अनिल कुमार	23/12/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, हैदराबाद
8	डॉ. मनीष भरत कुमार मुलचंदानी	03/12/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, गाँधी
9	डॉ. शेख ईमरान	01/12/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, आवड़ी
10	डॉ. अरचा एस.	18/11/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, पल्लीपूरम
11	डॉ. मनोज कुमार के.	01/12/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, आवड़ी
12	डॉ. मिहिर राज	23/02/2017 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, मुजफ्फरपुर
13	डॉ. ममिदला साई सिंधु	22/11/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, हैदराबाद
14	डॉ. अंदुकुरी शिनी राजी	30/11/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, हैदराबाद
15	डॉ. ईनापल्ली नागराजु	03/12/2016 (पूर्वाहन)	कम्पोजिट अस्पताल, बैंगलूरु

क्र.सं.	विशेषज्ञ चिकित्साधिकारी का नाम	रिपोर्ट करने की तिथि	रिपोर्ट किया गया स्थान
16	डॉ. मद्दिला वामसीसीधी कार्तिक	01/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, बैंगलूरु
17	डॉ. सौरभ संजय	02/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, मुजफ्फरपुर
18	डॉ. भार्गव सनगना	02/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, बैंगलूरु
19	डॉ. आस्था कोहली	26/11/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, दिल्ली
20	डॉ. अनुकुल चन्द्रा डी.	01/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, बैंगलूरु
21	डॉ. चन्द्र शेखर पटेल	28/11/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, राँची
22	डॉ. जनार्दन रेड्डी पुलुरु	17/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, बैंगलूरु
23	डॉ. स्पंदना कटाकम	02/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, हैदराबाद
24	डॉ. उप्पारतला रूपा	02/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, हैदराबाद
25	डॉ. सुरज मविलाकंडी	29/11/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, पल्लीपूरम
26	डॉ. टुंगला बालाजी	25/11/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, बिलासपुर
27	डॉ. कामा प्रवीण	01/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, बिलासपुर
28	डॉ. चन्द्रा शेखरन नायर कन्नाम	01/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, पल्लीपूरम
29	डॉ. अंकम श्रीनिवास	23/02/2017 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, बिलासपुर
30	डॉ. प्रवीण कुमार सिंह	03/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, रामपुर
31	डॉ. अनु गोरके	01/03/2017 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, जम्मू
32	डॉ. के. साई कृष्णा	30/11/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, नागपुर
33	डॉ. वेलामला वी. अप्पला नायडु	24/11/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, नागपुर
34	डॉ. विजय बहादुर	21/11/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, इलाहाबाद
35	डॉ. एस. ईश्वरा लोवा कृष्णा	02/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, नागपुर
36	डॉ. रोहित लखनोत्रा	02/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, जम्मू
37	डॉ. एम. शिवा कुमार	24/11/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, नागपुर
38	डॉ. मो. नसीर	02/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, नागपुर
39	डॉ. कोटना ताराकेश्वरी	01/12/2016 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, हैदराबाद

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 30 अक्टूबर 2018

सं. ओ दो-5522/2018-कार्मिक डीए-3—सक्षम प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस दिनांक 06/08/2018 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री राजीव कुमार सी. एन., द्वितीय कमान अधिकारी (ईरला-5522), 153 बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 30/09/2018 (अपराह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार, इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 30/09/2018 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

सुधाकर उपाध्याय
उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 26 सितम्बर 2018

सं. ई-15014/2/2018/कार्मिक.1/वैल्यू.2/549—राष्ट्रपति नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित सहायक कमांडेंटों (सीधे/पदोन्नति) के संबंध में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की घोषणा करते हैं तथा इन सहायक कमांडेंटों को उनके संबंधित पद में स्थाई करते हैं :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	पद	सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति की तारीख	परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की तारीख	सहायक कमांडेंट के पद में स्थाई होने की तारीख	इकाई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	विशाल बान्गर	स.का./कार्य	30.08.14	12.05.18	13.05.18	बी एच ई एल, हैदराबाद
2	श्राजीव भटनागर	स.का./कार्य	02.06.15 (AN)	13.06.18	लागू नहीं	बल मुख्यालय, नई दिल्ली
3	आरएस जमवाल	स.का./कार्य	15.06.15	25.05.18	लागू नहीं	एस एच ई पीए, सलाल
4	वरिन्दर कुमार भाटिया	स.का./जेएओ	12.02.16	11.02.18	लागू नहीं	दसवीं आ0वा0, आरकोणम
5	नैमिश कुमार सिंह	स.का./कार्य	24.10.09 23.06.15	22.06.15*	23.06.15	आर एस टी पी एस, रामागुण्डम

*गृह मंत्रालय के आई. डी. संख्या -45012/65/2015/कार्मिक-1 (पार्ट फाईल) दिनांक 13.06.2018 के दिशा निर्देशानुसार उक्त अधिकारी की परिवीक्षा दिनांक 22.06.2015 को पूर्ण हुई एवं तदनुसार दिनांक 23.06.2015 से पद पर स्थायी हुए। इसके पूर्व में इस महानिदेशालय की अधिसूचना संख्या ई-15014/2/2017/कार्मिक -1/वैल्यू-2/638 दिनांक 13/11/17 के क्रम संख्या 83 के अनुसार उक्त अधिकारी की परिवीक्षा दिनांक 22/06/17 को पूर्ण करने तथा दिनांक 23/06/17 से पद पर स्थायी करने सम्बन्धी विवरण को निरस्त समझा जाये।

ह./ अपठनीय
महानिदेशक/केऔसुब

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय]

नई दिल्ली, दिनांक 7 सितंबर 2018

सं. 19013/1/2018-डीसीएच/स्था.।।—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 जुलाई, 2018 के का.जा. सं.10/5/2018-ई.ओ.(एमएम-।) के अनुसरण में श्री संतोष कुमार सिंह, आई. ओ. फ. एस(1996) को प्रतिनियुक्ति के आधार पर दिनांक 28 अगस्त, 2018 के पूर्वाहन से 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय में निदेशक स्तर पर अपर विकास आयुक्त (हथकरघा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेंद्र आचार्य
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

दिनांक 14 सितम्बर 2018

सं. 2001/86/79-डी.सी.एच/स्था.।।—राष्ट्रपति, पदोन्नति के आधार पर श्रीमती रविंदर कौर सेठी को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय (मुख्यालय), वस्त्र मंत्रालय में दिनांक 27 जून, 2017 के पूर्वाहन से 9300-34800/- रुपये + रु. 4600/- के ग्रेड पे के पे बैंड-2, अब लेवल 7 पे मैट्रिक्स 44900-142400 रुपये में निजी सचिव (राजपत्रित समूह 'ख') के रूप में नियुक्त करते हैं।

जितेंद्र आचार्य
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

सं. 2001/42/77-डी.सी.एच/स्था.।.—राष्ट्रपति, पदोन्नति के आधार पर श्री सुरेन्दर सिंह नेगी को विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय (मुख्यालय), वस्त्र मंत्रालय में दिनांक 27 जून, 2017 के पूर्वाह्न से 15600-39100/- रुपये + 5400/- रुपये के ग्रेड पे के पे बैंड-3, अब लेवल 10 पे मैट्रिक्स 56100-177500 रुपये में सहायक निदेशक, ग्रेड-। (राजपत्रित समूह 'क') के रूप में नियुक्त करते हैं ।

जितेंद्र आचार्य
अपर विकास आयुक्त (हथकरघा)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL,
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE)

New Delhi, the 17th October 2018

No. O.II.4083/2016-Pers.DA-6—Consequent on acceptance of resignation by the competent authority, Dr. Enapalli Nagaraju, Medical Officer (Asstt. Comdt.) (IRLA-10969) of 195 Bn, CRPF has relinquished the charge of his post in the afternoon of 19/09/2018. Accordingly, his name is deleted from the rolls of the Force w.e.f. 19/09/2018 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY

DIG (Pers)

The 25th October 2018

No. O.II.7789/2018-Pers.DA-4—Consequent on acceptance of his notice dated 10/07/2018 for voluntary retirement from Government service Shri Manish Tyagi, Dy. Comdt. (IRLA No.7789) of 18 Bn, Kulgam, (J&K) relinquished the charge of his post in the afternoon of 11/10/2018. Accordingly, he has been struck off the strength of this Force with effect from, the same date i.e. 11/10/2018 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY

DIG (Pers)

The 29th October 2018

No. R.II.-1/2018-Pers-DA 6—The President of India is pleased to appoint the following Doctors as Specialist Medical Officer (Deputy Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600/- (Pay Matrix Level-11 as per 7th CPC) in temporary capacity from the date as shown against their names till further order :—

S/NO.	NAME OF SPECIALIST MEDICAL OFFICER	SPECIALTY/ STREAM	REPORTED/JOINED AT	DATE OF REPORTING
1	Dr. Ravi Shankar Prasad	Anaesthesia	CH Muzaffarpur	31/01/2017 (FN)
2	Dr. Shashi Bhushan Kumar	Pathologist	CH Muzaffarpur	24/11/2016 (FN)
3	Dr. Reena Singh	Obs & Gynaecology	CH Rampur	01/05/2017 (FN)

PART – II

The President of India is pleased to appoint the following Doctors as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay band of Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- (Pay Matrix Level-10 as per 7th CPC) in temporary capacity from the date as shown against their names till further order :—

S/NO.	NAME OF MEDICAL OFFICER	REPORTED/JOINED AT	DATE OF REPORTING
1	Dr. Mareddy Vishnu Vardhan	CH Hyderabad	02/01/2017 (FN)
2	Dr. Varun Mishra	CH Neemuch	29/11/2016 (FN)
3	Dr. Mandeep Singh	CH Jammu	30/11/2016 (FN)
4	Dr. Rahul Dinesh	CH Pallipuram	25/11/2016 (FN)
5	Dr. Abhishek Pandey	CH Ranchi	29/11/2016 (FN)
6	Dr. Gajula Arun Kumar	CH Avadi	30/11/2016 (FN)
7	Dr. R. Anil Kumar	CH Hyderabad	23/12/2016 (FN)
8	Dr. Manish Bharat Kumar Mulchandani	CH Gandhinagar	03/12/2016 (FN)
9	Dr. Shaik Imran	CH Avadi	01/12/2016 (FN)
10	Dr. (Ms) Archa S.	CH Pallipuram	18/11/2016 (FN)

S/NO.	NAME OF MEDICAL OFFICER	REPORTED/JOINED AT	DATE OF REPORTING
11	Dr. Manoj Kumar K	CH Avadi	01/12/2016 (FN)
12	Dr. Mihir Raj	CH Muzaffarpur	23/02/2017 (FN)
13	Dr. (Ms) Mamidala Sai Sindhu	CH Hyderabad	22/11/2016 (FN)
14	Dr. (Ms) Andukuri Shiny Raji	CH Hyderabad	30/11/2016 (FN)
15	Dr. Enapalli Nagaraju	CH Bangalore	03/12/2016 (FN)
16	Dr. Maddila Vamsisidhi Karthik	CH Bangalore	01/12/2016 (FN)
17	Dr. Saurabh Sanjay	CH Muzaffarpur	02/12/2016 (FN)
18	Dr. Bhargav Sanagana	CH Bangalore	02/12/2016 (FN)
19	Dr. (Ms) Ashta Kohli	CH Delhi	26/11/2016 (FN)
20	Dr. Ankul Chandra D.	CH Bangalore	01/12/2016 (FN)
21	Dr. Chandra Shekhar Patel	CH Ranchi	28/11/2016 (FN)
22	Dr. Janardhan Reddy Pulluru	CH Bangalore	17/12/2016 (FN)
23	Dr. (Ms) Spandana Katakam	CH Hyderabad	02/12/2016 (FN)
24	Dr. Upparatla Roopa	CH Hyderabad	02/12/2016 (FN)
25	Dr. Sooraj Mavilakandy	CH Pallipuram	29/11/2016 (FN)
26	Dr. Tungala Balaji	CH Bilaspur	25/11/2016 (FN)
27	Dr. Kama Praveen	CH Bilaspur	01/12/2016 (FN)
28	Dr. Chandra Sekharan Nair Kannam	CH Pallipuram	01/12/2016 (FN)
29	Dr. Ankam Srinivas	CH Bilaspur	23/02/2017 (FN)
30	Dr. Praveen Kumar Singh	CH Rampur	03/12/2016 (FN)
31	Dr. (Ms) Anu Gorke	CH Jammu	01/03/2017 (FN)
32	Dr. Kasanagottu Sai Krishna	CH Nagpur	30/11/2016 (FN)
33	Dr. Velamala V. Appala Naidu	CH Nagpur	24/11/2016 (FN)
34	Dr. Vijay Bahadur	CH Allahabad	21/11/2016 (FN)
35	Dr. Sabbavarapu Eswara Lova Krishna	CH Nagpur	02/12/2016 (FN)
36	Dr. Rohit Lakhotra	CH Jammu	02/12/2016 (FN)
37	Dr. M. Shiva Kumar	CH Nagpur	24/11/2016 (FN)
38	Dr. Mohd. Naseer	CH Nagpur	02/12/2016 (FN)
39	Dr. (Ms) Kotana Tarakeswari	CH Hyderabad	01/12/2016 (FN)

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

The 30th October 2018

No. O.II 5522/2018-Pers.DA 3—consequent on acceptance of his notice dated 06.08.2018 for voluntary retirement from Government service by the competent authority, Shri Rajeevu Kumar C.N., Second-in-Command (IRLA-5522) of 153 Bn, CRPF has relinquished his post on 30.09.2018 (A.N.). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 30.09.2018 (AN).

SUDHAKAR UPADHYAY
DIG (Pers)

**DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE**

New Delhi-03, the 26th September 2018

No. E-15014/2/2018/Pers-I/Vol.II/549—The President is pleased to declare satisfactory completion of probation period in respect of following Assistant Commandants (Direct/Promotee) in the respective ranks as per details given below :—

Sl. No.	Name of officer (S/Shri/Ms)	Rank	Date of apptt/ promotion as Asstt. Comdt.	Probation period completed satisfactorily on	Date of confirmation As Asstt. Comdt.	Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Vishal Bangarh	AC/Exe	30.08.14	12.05.18	13.05.18	BHEL, Hyderabad
2	Rajeev Bhatnagar	AC/Exe	02.06.15 (AN)	13.06.18	Not applicable	FHQrs
3	R S Jamwal	AC/Exe	15.06.15	25.05.18	Not applicable	SHEP, Salal
4	Varinder Kumar Bhatia	AC/JAO	12.02.16	11.02.18	Not applicable	10 th RB, Arakkonam
5	Naimish Kumar Singh	AC/Exe	24.10.09 23.06.15	22.06.15*	23.06.15	RSTPS, Ramagundam

*His probation has now been completed on 22.06.2015 and thus confirmed w.e.f. 23.06.2015 as per direction of MHA vide ID No. 45012/65/2015/Pers.I (Pt.file) dated 13.06.2018. The earlier order regarding completion of his probation period on 22.06.17 and confirmation w.e.f. 23.06.2017 issued vide Srl. No.83 of Notification No. E-15014/2/2017/ Pers.I/Vol.II/638 dated 13.11.2017 may be treated as cancelled.

Sd./- ILLGEBLE
Director General/CISF

**MINISTRY OF TEXTILES
(OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER FOR HANDLOOMS)**

New Delhi, the 7th September 2018

No. 19013/1/2018-DCH/Estt.I—The President is pleased to appoint Shri Santosh Kumar Singh, IOFS (1996) as Additional Development Commissioner for Handlooms at the level of Director in the Office of the Development Commissioner for Handlooms, Ministry of Textiles on deputation basis w.e.f the forenoon of 28th August 2018 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier, in pursuance of Department of Personnel & Training communication No. O.M. No. 10/5/2018-EO (MM-1) dated 10.07.2018.

JITENDRA ACHARYA
Additional Development Commissioner (Handlooms)

The 14th September 2018

No. 2001/86/79-DCH/Estt-I.— The President is pleased to appoint Smt. Ravinder Kaur Sethi as Private Secretary (Group 'B' Gazetted) on promotion basis in Pay Band-2 of Rs. 9300-34800/- + Grade Pay of Rs. 4600 now in the Level 7 in the Pay matrix of Rs. 44900-142400/- in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 7th February, 2017.

JITENDRA ACHARYA
Additional Development Commissioner (Handlooms)

No. 2001/42/77-DCH/Estt-I.— The President is pleased to appoint Shri Surender Singh Negi as Assistant Director Grade-I (Group 'A' Gazetted) on promotion basis in Pay Band-3 of Rs. 15600-39100/- + Grade Pay of Rs. 5400 now in Level 10 in the Pay Matrix of Rs. 56100-177500/- in the office of the Development Commissioner for Handlooms (Headquarters), Ministry of Textiles with effect from the forenoon of 27th June, 2017.

JITENDRA ACHARYA
Additional Development Commissioner (Handlooms)

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंगे रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली-110054 द्वारा ई-प्रकाशित

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF THE PUBLICATIONS, DELHI-110054

BANSI DHAR DUBEY

Digitally signed by BANSI DHAR DUBEY
Date: 2018.11.10 11:55:03 +05'30'